

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY. THIS IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES. THIS PUBLIC ANNOUNCEMENT IS NOT INTENDED FOR PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY OUTSIDE INDIA.



ADISOFT TECHNOLOGIES LIMITED

THE EQUITY SHARES OF THE COMPANY WILL GET LISTED ON SME PLATFORM OF NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED (“NSE EMERGE”)

Our Company was originally incorporated as a private limited company under the name “Adisoft Technologies Private Limited” on February 04, 2013, under the provisions of the Companies Act, 1956, with the Registrar of Companies, bearing CIN: U31108PN2013PTC146157. Thereafter, our Company was converted into a public limited company pursuant to a special resolution passed by our shareholders at the Extraordinary General Meeting held on September 11, 2025. Consequently, the name of our Company was changed from “Adisoft Technologies Private Limited” to “Adisoft Technologies Limited”, and a fresh certificate of incorporation reflecting the conversion to a public company was issued by the Registrar of Companies, Central Processing Centre, on September 17, 2025. Our Company’s Corporate Identity Number is U31108PN2013PLC146157. For further details please refer to chapter titled “*History and Corporate Structure*” beginning on page 148 of the Red Herring Prospectus.

Registered Office: Prathamesh Complex & Trading Plot No. PAP-BG-102, 103, 104 & 105, 1st and 2nd Floor, MIDC Chinchwad Industrial Area, Bhosari I.E., Pune - 411026, Maharashtra, India
Tel.: +91 8208781102, **E-mail:** cs@adisoft.co.in, **Website:** www.adisoft.co.in; **CIN:** U31108PN2013PLC146157
Contact Person: Vaibhav Nandkumar Salunke, Company Secretary & Compliance Officer

OUR PROMOTERS: AJAY CHANDRASHEKHAR PRABHU AND PREETI AJAY PRABHU

THE ISSUE

INITIAL PUBLIC OFFER OF UPTO 43,08,000* EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH (THE “EQUITY SHARES”) OF ADISOFT TECHNOLOGIES LIMITED (“OUR COMPANY” OR “ATL” OR “THE ISSUER”) AT AN ISSUE PRICE OF ₹ [●] PER EQUITY SHARE (INCLUDING SHARE PREMIUM OF [●] PER EQUITY SHARE) FOR CASH, AGGREGATING UP TO ₹[●] LAKHS (“PUBLIC ISSUE”) OUT OF WHICH 2,16,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH, AT AN ISSUE PRICE OF ₹ [●] PER EQUITY SHARE FOR CASH, AGGREGATING ₹ [●] LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY THE MARKET MAKER TO THE ISSUE (THE “MARKET MAKER RESERVATION PORTION”). THE PUBLIC ISSUE LESS MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. ISSUE OF UPTO 40,92,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH, AT AN ISSUE PRICE OF ₹ [●] PER EQUITY SHARE FOR CASH, AGGREGATING UPTO ₹ [●] LAKHS IS HEREIN AFTER REFERRED TO AS THE “NET ISSUE”. THE PUBLIC ISSUE AND NET ISSUE WILL CONSTITUTE 26.40% AND 25.08% RESPECTIVELY OF THE POST- ISSUE PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.

*Subject to finalization of Basis of Allotment.

PRICE BAND: ₹ 163 TO ₹ 172 PER EQUITY SHARE OF FACE VALUE ₹ 10/- EACH

THE FLOOR PRICE (₹163) IS 16.3 TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES AND THE CAP PRICE (₹172) IS 17.2 TIMES OF THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES.
THE PRICE TO EARNING RATIO BASED ON DILUTED EPS FOR FISCAL 2025 AT THE FLOOR PRICE (₹163) IS 12.16 TIMES AND AT THE CAP PRICE (₹172) IS 12.83 TIMES.
BIDS CAN BE MADE FOR A MINIMUM OF 1600 EQUITY SHARES AND IN MULTIPLES OF 800 EQUITY SHARES THEREAFTER

Weighted Average Return on Net worth for the last three Fiscal years should be read as 32.92%

The details of the Fresh Issue and the post-Issue market capitalisation of the Company, each at the Floor Price (₹163) and the Cap Price (₹172), are given below:

Particular	At Floor price of ₹163 per equity share		At Cap price of ₹172 per equity share	
	Up to No of equity Shares of face value of Rs. 10/- each	Up to amount (Rs in Lakhs)	Up to No of equity Shares of face value of Rs. 10/- each	Up to amount (Rs in Lakhs)
Fresh Issue	43,08,000	7,022.04	43,08,000	7,409.76
Offer for Sale	-	-	-	-
Total Issue Size	43,08,000	7,022.04	43,08,000	7,409.76
Post-Issue Market Capitalization of the Company	1,63,18,000	26,598.34	1,63,18,000	28,066.96

BID/ OFFER PROGRAMME

ANCHOR INVESTOR BIDDING DATE: WEDNESDAY, APRIL 22, 2026
BID/ OFFER OPENED ON: THURSDAY, APRIL 23, 2026
BID/ OFFER CLOSED ON: MONDAY, APRIL 27, 2026 ^

^UPI mandate end time shall be at 05:00 p.m. on the Bid/Offer closing date.

NOTICE TO INVESTORS

CORRIGENDUM TO THE RED HERRING PROSPECTUS DATED APRIL 18, 2026 (“THE CORRIGENDUM”)

This corrigendum should be read in conjunction with the Red Herring Prospectus of Adisoft Technologies Limited (the “Company”) dated April 18, 2026 (“RHP”) filed with the Registrar of Companies, the Stock Exchange and the SEBI.

Investors are requested to note the following:

In the Red Herring Prospectus dated April 18, 2026 (“RHP”), the allocation of Equity Shares to Qualified Institutional Buyers (“QIBs”), including the Anchor Investor Portion and Non-Institutional Investors (“NIIs”) at the relevant sections stands rectified as follows-

QIB Portion - not more than 20,44,000 Equity Shares of ₹10 each

Anchor Investor Portion - upto 12,25,600 Equity Shares of ₹10 each

Non-Institutional Portion - not less than 6,14,400 Equity Shares of face value of ₹10 each

Accordingly, disclosures relating to the allocation of Equity Shares in the chapters titled “*Definitions and Abbreviations*” on page 1, “*The Issue*” on page 51, “*Capital Structure*” on page 69 and “*Issue Structure*” on page 263 of the RHP, shall be read as amended and substituted with the revised details set out as above.

Note: The Red Herring Prospectus shall be read in conjunction with this Corrigendum. The information specified in this Corrigendum supersedes the information in the Red Herring Prospectus to the extent inconsistent with the information already specified therein. The Red Herring Prospectus accordingly stands amended to the extent stated herein.

Unless otherwise specified, all capitalized terms used herein shall have the same meaning ascribed to such terms in the RHP. For further details, please refer to the Red Herring Prospectus.

BOOK RUNNING LEAD MANAGER TO THE ISSUE	REGISTRAR TO THE ISSUE	COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER
 Hem Securities		
HEM SECURITIES LIMITED Address: 904, A Wing, Naman Midtown, Senapati Bapat Marg, Elphinstone Road, Lower Parel, Mumbai-400013, Maharashtra, India. Tel. No.: +91-22-4906 0000 Email: ib@hemsecurities.com Investor Grievance Email: redressal@hemsecurities.com Website: www.hemsecurities.com Contact Person: Ajay Jain SEBI Registration Number: INM000010981 CIN: U67120RJ1995PLC010390	KFIN TECHNOLOGIES LIMITED Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad – 500 032, Telangana Telephone: +91-40-67162222 Email: adisoft.ipo@kfintech.com Investor Grievance Email: einward.ris@kfintech.com Contact Person: M. Murali Krishna, Senior VP SEBI Registration No.: INR000000221 CIN: L72400TG2017PLC117649	Vaibhav Nandkumar Salunke ADISOFT TECHNOLOGIES LIMITED Address: Prathamesh Complex & Trading Plot No. PAP- BG-102, 103, 104 & 105, 1st and 2ndFloor, MIDC Chinchwad Industrial Area, Bhosari I.E., Pune - 411026, Maharashtra, India. Telephone: +91 8208781102 ; Email: cs@adisoft.co.in Website: www.adisoft.co.in ; CIN: U31108PN2013PLC146157 Investors may contact the Company Secretary and Compliance Officer or the Registrar to the Issue in case of any pre-Issue or post-Issue related grievances including non-receipt of letters of allotment, non-credit of allotted equity shares in the respective beneficiary account, non-receipt of refund orders or non-receipt of funds by electronic mode, etc. For all issue related queries and for redressal of complaints investors may also write to the BRLMS.

All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the Red Herring Prospectus.

Place: Pune, Maharashtra
Date: April 21, 2026

On behalf of Board of Directors
Adisoft Technologies Limited
Sd/-
Vaibhav Nandkumar Salunke
Company Secretary and Compliance Officer


Disclaimer- Adisoft Technologies Limited is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public Issue of its Equity Shares the Red Herring Prospectus dated April 18, 2026 has been filed with the Registrar of Companies, Pune and thereafter with SEBI and the Stock Exchanges. The Red Herring Prospectus is available on the website of the SEBI at www.sebi.gov.in, website of NSE at https://www.nseindia.com/companies-listing/corporate-filings-offer-documents and is available on the websites of the BRLM at www.hemsecurities.com. Any potential investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to the same, please refer to the Red Herring Prospectus including the section titled “*Risk Factors*” beginning on page 25 of the Red Herring Prospectus.

The Equity Shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the “*Securities Act*”) or any state securities laws in the United States, and unless so registered, and may not be issued or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and in accordance with any applicable U.S. State Securities laws. The Equity Shares are being issued and sold outside the United States in ‘offshore transactions’ in reliance on Regulation “S” under the Securities Act and the applicable laws of each jurisdiction where such issues and sales are made. There will be no public Issuing in the United States.

In fast or fragile markets,
insight brings
perspective.

Decode market moves with
sharp, fast, expert analysis —
every day with **Stocks in the News**
in Business Standard.

To book your copy,
SMS reachbs to 57575 or
email order@bsmail.in



Business Standard
Insight Out

कच्चे तेल के आयात में भारी गिरावट



शुभांगी माथुर
नई दिल्ली, 21 अप्रैल

पश्चिम एशिया में आपूर्ति में कच्चे तेल आयात की मात्रा में भारी गिरावट आई है, जिसके परिणामस्वरूप मार्च में देश का कच्चे तेल का आयात बिल सालाना हिसाब से 4.9 प्रतिशत घटकर 11.7 अरब डॉलर रह गया। यह जानकारी पेट्रोलियम मंत्रालय के आंकड़ों से सामने आई है।

पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण सेल के आंकड़ों के अनुसार मार्च में कच्चे तेल के आयात की मात्रा सालाना स्तर से 17 प्रतिशत घटकर 1.89 करोड़ टन रह गई, जो पिछले साल इसी अवधि में 2.28 करोड़ थी। फरवरी के अंत में अमेरिका-इजरायल द्वारा ईरान पर किए गए सैन्य हमलों के बाद से सऊदी अरब, इराक, कुवैत और कतर जैसे पश्चिम एशियाई देशों से भारत की ऊर्जा आपूर्ति बाधित रही है, जिसके कारण अंततः होर्मुज स्ट्रेट बंद हो गया।

पूरे वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत का कच्चे तेल का आयात बिल घटकर 121.8 अरब डॉलर रह गया, जबकि 2024-25 में यह 137.2 अरब डॉलर था। मार्च 2025 में 72.47 डॉलर प्रति बैरल और फरवरी 2026 में 69.01 डॉलर प्रति बैरल की तुलना में भारतीय बास्केट कच्चे तेल की कीमत मार्च में औसतन 113.49 डॉलर प्रति बैरल रही, जो काफी अधिक है।

मार्च में भारत के पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात भी सालाना स्तर से 24.5 प्रतिशत घटकर 46 लाख टन रह गया, जो पिछले साल 61 लाख टन था। यह घरेलू बाजार में इन उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा डीजल और एविेशन टरबाइन फ्यूल (एटीएफ) पर निर्यात शुल्क लगाने के कारण हुआ है। वर्तमान में सरकार ने डीजल पर 55.50 रुपये प्रति लीटर और एटीएफ पर 42 रुपये प्रति लीटर का निर्यात शुल्क लगाया है।

कच्चे तेल के अलावा, भारत तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) और तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) जैसे

पेट्रोलियम उत्पादों का भी आयात करता है, जबकि डीजल और पेट्रोल जैसे उत्पादों का निर्यात करता है। मार्च में शुद्ध तेल और गैस आयात बिल भी पिछले साल के 11.3 अरब डॉलर से घटकर 11 अरब डॉलर रह गया। एलपीजी की कमी के बीच भारत की एलएनजी खपत मार्च में सात प्रतिशत बढ़कर 5,727 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर हो गई, जो पिछले साल इसी अवधि में 5,345 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर थी। केंद्र सरकार देश में खाना पकाने के ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्राकृतिक गैस के उपयोग को बढ़ावा दे रही है।

पांच लाख से अधिक नए पीएनजी कनेक्शन

पश्चिम एशिया संकट से एलपीजी की आपूर्ति पर बने दबाव के बीच मार्च से अब तक देश में पाइप वाली रसोई गैस (पीएनजी) के 5.01 लाख से अधिक नए कनेक्शनों में आपूर्ति शुरू हो चुकी है, जबकि 5.68 लाख से अधिक उपभोक्ताओं ने नए कनेक्शन के लिए पंजीकरण कराया है। पेट्रोलियम और

प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने मंगलवार को संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी। आपूर्ति गतिरोध के बीच सरकार ने रसोई गैस (एलपीजी) सिलिंडर की तुलना में अधिक सुविधाजनक विकल्प के रूप में पीएनजी को बढ़ावा देने के प्रयास तेज किए हैं। इस दौरान पीएनजी नेटवर्क के दायरे में आने वाले उपभोक्ताओं को एलपीजी से पीएनजी में स्थानांतरित होने के लिए कहा गया है। इसके अलावा गैस पाइपलाइन बिछाने की मंजूरी प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है।

शर्मा ने बताया कि 19 अप्रैल तक करीब 39,400 उपभोक्ताओं ने पीएनजी आपूर्ति शुरू होने के बाद अपने एलपीजी कनेक्शन सरेंडर कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति फिलहाल स्थिर है और गैस वितरकों के स्तर पर किल्लत की कोई सूचना नहीं है। ऑनलाइन सिलिंडर बुकिंग दर 98 प्रतिशत तक पहुंच गई है, जबकि आपूर्ति सत्यापन कोड (डीएसी) पर आधारित आपूर्ति लगभग 92 प्रतिशत हो गई है।

एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक पर उत्साहित विश्लेषक

निकिता वशिष्ठ
नई दिल्ली, 21 अप्रैल

वित्त वर्ष 2026 की मार्च तिमाही के नतीजों के बाद विश्लेषकों ने एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक पर अपना रुख सकारात्मक बनाए रखा है। हालांकि वृद्धि के मुख्य कारकों पर उनके नजरिए अलग-अलग हैं। जहां एचडीएफसी बैंक के लिए अलपावधि की चाल ऋण वृद्धि में तेजी पर निर्भर है, वहीं आईसीआईसीआई बैंक को मध्यावधि में मूल्यांकन रेटिंग में बदलाव के लिए संभावित दावेदार के रूप में देखा जा रहा है।

एंटिक स्टॉक ब्रोकिंग ने कहा है, 'एचडीएफसी बैंक ने मुनाफे के मामले में वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही में मोटे तौर

पर उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन किया और उसकी जमा वृद्धि में मजबूती देखने को मिली। लेकिन ऋण वृद्धि में कोई सार्थक तेजी आनी अभी बाकी है और यह संभावित री-रेटिंग के लिए अहम कारक है।' ब्रोकरेज ने इस शेयर के लिए 'खरीदें' रेटिंग बरकरार रखी है। लेकिन कीमत लक्ष्य 1,100 रुपये से घटाकर 1,055 रुपये कर दिया है।

आईसीआईसीआई बैंक के लिए जेएम फाइनेंशियल ने उसकी सेक्टर में बड़ी ऋण वृद्धि, शानदार शुद्ध ब्याज मार्जिन (एनआईएम) प्रबंधन और मजबूत परिसंपत्ति गुणवत्ता रुझानों के बारे में बताया है, जिन्से बड़े बैंकों के बीच उसके प्रीमियम मूल्यांकन को मदद मिल सकती है। ब्रोकरेज ने शेयर के लिए 'खरीदें' रेटिंग बरकरार रखी है और कीमत लक्ष्य 1,550 रुपये से बढ़ाकर



1,630 रुपये कर दिया है।

चौथी तिमाही का प्रदर्शन

एचडीएफसी बैंक ने वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही के लिए अपने शुद्ध लाभ में सालाना आधार पर 9 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की और यह 19,220 करोड़ रुपये रहा। शुद्ध ब्याज आय (एनआईआई) सालाना आधार पर 3.2 प्रतिशत बढ़कर 33,080

करोड़ रुपये हो गई, जबकि एनआईएम तिमाही आधार पर 3 आधार अंक बढ़कर 3.38 प्रतिशत हो गया।

ऋण वृद्धि नरम रही। इसमें एसएमई (17.2 फीसदी सालाना की वृद्धि) और कॉर्पोरेट सेगमेंट (13 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि) की मदद से अग्रिम का आंकड़ा सालाना आधार पर 12.1 फीसदी और तिमाही आधार पर 4.1 फीसदी वृद्धि के साथ 29.4 लाख करोड़ रुपये रहा। जमा एक साल पहले के मुकाबले 14.4 फीसदी बढ़कर 31.1 लाख करोड़ रुपये रही और कासा अनुपात सुधरकर 34.1 प्रतिशत हो गया। ऋण-जमा अनुपात (एलडीआर) वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही के 98.7 प्रतिशत से सुधरकर 94.6 प्रतिशत हो गया। इसके विपरीत, आईसीआईसीआई बैंक ने

उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन दर्ज किया। शुद्ध लाभ सालाना आधार पर 8 प्रतिशत और तिमाही आधार पर 21 फीसदी बढ़कर 13,700 करोड़ रुपये हो गया। एनआईआई एक साल पहले के मुकाबले 8.4 प्रतिशत बढ़कर 22,980 करोड़ रुपये हो गई, जबकि एनआईएम 4.32 प्रतिशत पर रहा, जो पिछली तिमाही से 2 आधार अंक अधिक है। दोनों ऋणदाताओं ने परिसंपत्ति गुणवत्ता और प्रावधान खर्च में सुधार की जानकारी दी है।

वृद्धि पर अलग दृष्टिकोण

एमके ग्लोबल के अनुसार आईसीआईसीआई बैंक की ऋण वृद्धि में वित्त वर्ष 2026 की पहली छमाही की धीमी रफ्तार के बाद फिर से मजबूती दिखी।

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY. THIS IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES. THIS PUBLIC ANNOUNCEMENT IS NOT INTENDED FOR PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY OUTSIDE INDIA.



ADISOFT TECHNOLOGIES LIMITED

THE EQUITY SHARES OF THE COMPANY WILL GET LISTED ON SME PLATFORM OF NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED (“NSE EMERGE”)

Our Company was originally incorporated as a private limited company under the name “Adisoft Technologies Private Limited” on February 04, 2013, under the provisions of the Companies Act, 1956, with the Registrar of Companies, bearing CIN: U31108PN2013PTC146157. Thereafter, our Company was converted into a public limited company pursuant to a special resolution passed by our shareholders at the Extraordinary General Meeting held on September 11, 2025. Consequently, the name of our Company was changed from “Adisoft Technologies Private Limited” to “Adisoft Technologies Limited”, and a fresh certificate of incorporation reflecting the conversion to a public company was issued by the Registrar of Companies, Central Processing Centre, on September 17, 2025. Our Company’s Corporate Identity Number is U31108PN2013PLC146157. For further details please refer to chapter titled “*History and Corporate Structure*” beginning on page 148 of the Red Herring Prospectus.

Registered Office: Prathamesh Complex & Trading Plot No. PAP-BG-102, 103, 104 & 105, 1st and 2nd Floor, MIDC Chinchwad Industrial Area, Bhosari I.E., Pune - 411026, Maharashtra, India
Tel.: +91 8208781102, **E-mail:** cs@adisoft.co.in, **Website:** www.adisoft.co.in; **CIN:** U31108PN2013PLC146157
Contact Person: Vaibhav Nandkumar Salunke, Company Secretary & Compliance Officer

OUR PROMOTERS: AJAY CHANDRASHEKHAR PRABHU AND PREETI AJAY PRABHU

THE ISSUE

INITIAL PUBLIC OFFER OF UPTO 43,08,000* EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH (THE “EQUITY SHARES”) OF ADISOFT TECHNOLOGIES LIMITED (“OUR COMPANY” OR “ATL” OR “THE ISSUER”) AT AN ISSUE PRICE OF ₹ (●) PER EQUITY SHARE (INCLUDING SHARE PREMIUM OF ●) PER EQUITY SHARE) FOR CASH, AGGREGATING UP TO ₹ (●) LAKHS (“PUBLIC ISSUE”) OUT OF WHICH 2,16,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH, AT AN ISSUE PRICE OF ₹ (●) PER EQUITY SHARE FOR CASH, AGGREGATING ₹ (●) LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY THE MARKET MAKER TO THE ISSUE (THE “MARKET MAKER RESERVATION PORTION”). THE PUBLIC ISSUE LESS MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. ISSUE OF UPTO 40,92,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH, AT AN ISSUE PRICE OF ₹ (●) PER EQUITY SHARE FOR CASH, AGGREGATING UPTO ₹ (●) LAKHS IS HEREIN AFTER REFERRED TO AS THE “NET ISSUE”. THE PUBLIC ISSUE AND NET ISSUE WILL CONSTITUTE 26.40% AND 25.08% RESPECTIVELY OF THE POST- ISSUE PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.

*Subject to finalization of Basis of Allotment.

PRICE BAND: ₹ 163 TO ₹ 172 PER EQUITY SHARE OF FACE VALUE ₹ 10/- EACH

THE FLOOR PRICE (₹163) IS 16.3 TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES AND THE CAP PRICE (₹172) IS 17.2 TIMES OF THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES.

THE PRICE TO EARNING RATIO BASED ON DILUTED EPS FOR FISCAL 2025 AT THE FLOOR PRICE (₹163) IS

12.16 TIMES AND AT THE CAP PRICE (₹172) IS 12.83 TIMES.

BIDS CAN BE MADE FOR A MINIMUM OF 1600 EQUITY SHARES AND IN MULTIPLES OF 800 EQUITY SHARES THEREAFTER

Weighted Average Return on Net worth for the last three Fiscal years should be read as 32.92%

The details of the Fresh Issue and the post-Issue market capitalisation of the Company, each at the Floor Price (₹163) and the Cap Price (₹172), are given below:

Particular	At Floor price of ₹163 per equity share		At Cap price of ₹172 per equity share	
	Up to No of equity Shares of face value of Rs. 10/- each	Up to amount (Rs in Lakhs)	Up to No of equity Shares of face value of Rs. 10/- each	Up to amount (Rs in Lakhs)
Fresh Issue	43,08,000	7,022.04	43,08,000	7,409.76
Offer for Sale	-	-	-	-
Total Issue Size	43,08,000	7,022.04	43,08,000	7,409.76
Post-Issue Market Capitalization of the Company	1,63,18,000	26,598.34	1,63,18,000	28,066.96

BID/ OFFER PROGRAMME

ANCHOR INVESTOR BIDDING DATE: WEDNESDAY, APRIL 22, 2026

BID/ OFFER OPENED ON: THURSDAY, APRIL 23, 2026

BID/ OFFER CLOSED ON: MONDAY, APRIL 27, 2026 ^

^UPI mandate end time shall be at 05:00 p.m. on the Bid/Offer closing date.

NOTICE TO INVESTORS

CORRIGENDUM TO THE RED HERRING PROSPECTUS DATED APRIL 18, 2026 (“THE CORRIGENDUM”)

This corrigendum should be read in conjunction with the Red Herring Prospectus of Adisoft Technologies Limited (the “Company”) dated April 18, 2026 (“RHP”) filed with the Registrar of Companies, the Stock Exchange and the SEBI.

Investors are requested to note the following:

In the Red Herring Prospectus dated April 18, 2026 (“RHP”), the allocation of Equity Shares to Qualified Institutional Buyers (“QIBs”), including the Anchor Investor Portion and Non-Institutional Investors (“NIIs”) at the relevant sections stands rectified as follows-

QIB Portion - not more than 20,44,000 Equity Shares of ₹10 each

Anchor Investor Portion - upto 12,25,600 Equity Shares of ₹10 each

Non-Institutional Portion - not less than 6,14,400 Equity Shares of face value of ₹10 each

Accordingly, disclosures relating to the allocation of Equity Shares in the chapters titled “*Definitions and Abbreviations*” on page 1, “*The Issue*” on page 51, “*Capital Structure*” on page 69 and “*Issue Structure*” on page 263 of the RHP, shall be read as amended and substituted with the revised details set out as above.

Note: The Red Herring Prospectus shall be read in conjunction with this Corrigendum. The information specified in this Corrigendum supersedes the information in the Red Herring Prospectus to the extent inconsistent with the information already specified therein. The Red Herring Prospectus accordingly stands amended to the extent stated herein.

Unless otherwise specified, all capitalized terms used herein shall have the same meaning ascribed to such terms in the RHP. For further details, please refer to the Red Herring Prospectus.

BOOK RUNNING LEAD MANAGER TO THE ISSUE	REGISTRAR TO THE ISSUE	COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER
 Hem Securities		
HEM SECURITIES LIMITED Address: 904, A Wing, Naman Midtown, Senapati Bapat Marg, Elphinstone Road, Lower Parel, Mumbai-400013, Maharashtra, India. Tel. No.: +91-22-4906 0000 Email: ip@hemsecurities.com Investor Grievance Email: redressal@hemsecurities.com Website: www.hemsecurities.com Contact Person: Ajay Jain SEBI Registration Number: INM000010981 CIN: U67120RJ1995PLC010390	KFIN TECHNOLOGIES LIMITED Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad – 500 032, Telangana Telephone: +91-40-67162222, Email: adisoft.ipo@kfintech.com Investor Grievance Email: einward.ris@kfintech.com Contact Person: M. Murali Krishna, Senior VP SEBI Registration No.: INR000000221 CIN: L72400TG2017PLC117649	Vaibhav Nandkumar Salunke ADISOFT TECHNOLOGIES LIMITED Address: Prathamesh Complex & Trading Plot No. PAP- BG-102, 103, 104 & 105, 1st and 2ndFloor, MIDC Chinchwad Industrial Area, Bhosari I.E., Pune - 411026, Maharashtra, India. Telephone: +91 8208781102 Email: cs@adisoft.co.in Website: www.adisoft.co.in ; CIN: U31108PN2013PLC146157 Investors may contact the Company Secretary and Compliance Officer or the Registrar to the Issue in case of any pre-Issue or post-Issue related grievances including non-receipt of letters of allotment, non-credit of allotted equity shares in the respective beneficiary account, non-receipt of refund orders or non-receipt of funds by electronic mode, etc. For all Issue related queries and for redressal of complaints investors may also write to the BRLMS.

All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the Red Herring Prospectus.

On behalf of Board of Directors
Adisoft Technologies Limited
Sd/-
Vaibhav Nandkumar Salunke
Company Secretary and Compliance Officer

Disclaimer- Adisoft Technologies Limited is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public Issue of its Equity Shares the Red Herring Prospectus dated April 18, 2026 has been filed with the Registrar of Companies, Pune and thereafter with SEBI and the Stock Exchanges. The Red Herring Prospectus is available on the website of the SEBI at www.sebi.gov.in, website of NSE at https://www.nseindia.com/companies-listing/corporate-filings-offer-documents and is available on the websites of the BRLM at www.hemsecurities.com. Any potential investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to the same, please refer to the Red Herring Prospectus including the section titled “*Risk Factors*” beginning on page 25 of the Red Herring Prospectus.

The Equity Shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the “*Securities Act*”) or any state securities laws in the United States, and unless so registered, and may not be issued or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and in accordance with any applicable U.S. State Securities laws. The Equity Shares are being issued and sold outside the United States in ‘offshore transactions’ in reliance on Regulation “S” under the Securities Act and the applicable laws of each jurisdiction where such issues and sales are made. There will be no public Issuance in the United States.

सूचीबद्ध फर्मों का सीएसआर खर्च 23 फीसदी बढ़ा

अक्षिता सिंह
नई दिल्ली, 21 अप्रैल

एनएसई के मुख्य प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध कंपनियों का कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) पर खर्च वित्त वर्ष 25 में सालाना आधार पर 23 फीसदी बढ़कर 22,212 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। यह खर्च एक साल पहले 18,011 करोड़ रुपये रहा था। प्राइम डेटाबेस ग्रुप की रिपोर्ट से यह जानकारी मिली।

यह बढ़ोतरी कंपनियों के मुनाफे में हुई तेज वृद्धि के साथ-साथ हुई। प्राइम डेटाबेस ग्रुप के प्रबंध निदेशक प्रणव हल्लिया ने बताया कि पिछले तीन वर्षों में औसत शुद्ध मुनाफा 22 फीसदी बढ़ा है। उन्होंने कहा, ऐसा इन कंपनियों के औसत शुद्ध मुनाफे (पिछले 3 सालों का) में ई 22 फीसदी की जबरदस्त बढ़ोतरी की वजह से हुआ, जिसका 2 फीसदी हिस्सा नियामकीय जरूरतों के मुताबिक सीएसआर गतिविधियों पर खर्च करना जरूरी है।

भारत का सीएसआर दांचा अप्रैल 2014 से लागू है। इसके

तहत पात्र कंपनियों के लिए अनिवार्य है कि वे अपने पिछले तीन वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का दो फीसदी सामाजिक पहलों पर खर्च करें।

कवरेज और अनुपालन

31 मार्च, 2025 तक एनएसई के मुख्य प्लेटफॉर्म पर 2,142 कंपनियां सूचीबद्ध थीं। 2,081 फर्मों की सालाना रिपोर्ट उपलब्ध थीं, जिनमें से 2,066 ने सीएसआर आंकड़ों का खुलासा किया। इनमें से 1,549 कंपनियों के लिए सीएसआर पर खर्च करना जरूरी था। एक साल पहले यह संख्या 1,399 थी।

उनका कुल औसत शुद्ध लाभ 9.64 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 11.76 लाख करोड़ रुपये हो गया, जिसका मतलब है कि वित्त वर्ष 25 के लिए अनिवार्य सीएसआर खर्च 22,732 करोड़ रुपये होना चाहिए। असल खर्च 22,212 करोड़ रुपये रहा। हल्लिया ने इस अंतर की वजह उन बचे हुए फंडों को बताया, जिन्हें तय खातों में हस्तांतरित कर दिया गया था।